

June 03, 2024

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G Block,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 051

Symbol: LALPATHLAB

BSE Limited
Corporate Relationship Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 539524

Sub: Newspaper advertisement(s)

Ref: Intimation regarding 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company

Dear Sir/ Madam.

Pursuant to Regulation 30 and 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached the copy of newspaper advertisement(s) published in Financial Express and Jansatta on June 03, 2024, intimating that the 30<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Company will be held on Saturday, June 29, 2024 through Video Conferencing/ Other Audio Visual Means ("VC/ OAVM).

We request you to please take the same on record.

Thanking You, Yours Faithfully,

For Dr. Lal PathLabs Limited

Vinay Gujral
Company Secretary & Compliance Officer

Encl.: As above

### WITH OLX, CARTRADE HAS A GOOD PROPOSITION

# Driving synergies

AYANTI BERA Bengaluru, June 2

AFTER A BUMPY start, CarTrade Tech is determined to make the OLX acquisition work. Last August, the company bought the OLX classifieds platform and OLX Autos C2B (consumer-to-business) transaction businesses for ₹543 crore.

Within a few months, the lossmaking auto transaction business was shut down. In hindsight, that was a good decision because the business was both asset and operations-heavy, and, was bleeding. "We couldn't make it work so we decided to shut it down," says Vinay Sanghi, CEO & MD, CarTrade, who feels it is better to run asset-light businesses.

Sanghi believes the buyout will be game-changing for his company allowing it to move into new spaces; 55% of OLX's revenues come from the non-auto categories. "We bought OLX because more than 30 million Indians are selling something on the portal, whether it's cars, two-wheelers, electronics, household items, or furniture," he says, confident the business can be scaled up. "We feel that we can grow this business rapidly because there is always value for a used product," he told *FE*.

Experts, like Siddhartha Bera at Nomura Global Markets Research, observe that being a wider classified platform the reach is good at more than 100 million app downloads and 35 million plus average monthly unique visitors.

But before it gets down to focus-

ing on new categories, including real estate and jobs, CarTrade will work on OLX's used car classifieds segment which has been growing at an annualised 20% in the past few years. This piece complements its existing core business of used car listings across Carwale, Bikewale, CarTrade.com and the auction platform Shriram Automall (SAMIL). The idea is to increase the number of dealers listing on OLX and also the average revenue per dealer.

There's no doubt the runway is a long one. Today, the unorganised sector has a predominantly bigger share, of about 75-80% of the used car segment in India.

According to experts, the online segment is expected to grow at a

THERE ARE SYNERGIES TO BE **EXPLOITED BETWEEN OLX AND CARWALE** AND ALSO WITH SAMIL'S **AUCTION PLATFORM** 

# **REVVING UP THE ENGINE**

Consolidated financial snapshot of Cartrade, March fiscal year-ends, 2018-27E (₹ mn) Revenue from operations Ebitda 2024

794 2025E 1,026 2026E Profit after tax 821 953 2026E 2025E 2025E 2026E Source: Company, Kotak Institutional Equities estimates

compound annual rate of 15% in 2020-2030 fuelled mainly by consumers'aspirations. Experts say people are buying cars more frequently, virtually every four to five years. Besides, as Som Kapoor, Partner, EY says there are many more buyers with demand, especially from Tier 2 and Tier3 cities growing very fast. Yogesh Aggarwal at HSBC expects the online used car market to grow at a rapid pace as the industry digitises and

moves into the formal economy. "By FY30, it could be around \$60 billion, as online players control the entire value chain and enable customer-tocustomer sales," Aggarwal estimates. For perspective, in 2021, the market was about \$2-3 billion.

"The ratio of used cars to new cars was just 1.6x in 2021. That is expected to rise to around 2x by 2026. By then online transactions could cross 8 million cars from 5.5-6million used cars

sold online now," says an expert. The many players in the used car market such as Mahindra First Choice, Spinny, Droom or Toyota Trust, follow various models whether it's a B2B, B2C or a C2C one.

EY's Kapoor believes there is room for all models to survive though he points out that pure-play online models do suffer from the disadvantage that buyers cannot see the product."The look and feel becomes diffi-

cult" Kapoor says, adding that a hybrid model typically works well though it does mean higher costs.

CarTrade today is present in more than 350 physical locations. Sanghi claims that 70-80% of individuals and dealers choose between OLX and Carwale. "There are no other classified car platforms for used cars," he says.

Where the company scores over others, according to Kapoor, is in the synergies across the various portals.

"Earlier a dealer would have to go to Carwale to list and buy and then go to OLX to buy and list. We are building technology so that eventually a dealer can log into one place and list cars seamlessly on both platforms," the CEO explains.

There are also synergies to be exploited between OLX, Carwale and SAMIL's auction platform where about a million vehicles are auctioned every year. "So if you are selling a car on Carwale, you can seamlessly auction to a number of dealers instantly," he points out.

Again, a used car dealer bidding for a vehicle on SAMIL can list a car on OLX or CarWale for sale. The company is now trying to get customers who are listing a sale on OLX and CarWale to also auction it on SAMIL. Sanghi says a listing and sale on a Carwale or an OLX can fetch the seller a better price because it's a C2C transaction and there are no intermediaries.

CarTrade is teaming up with fintechs to provide loans—instantly-- to buyers for cars and two-wheelers on Carwale and Bikewale.

Typically 80% of buyers are looking for credit and the company plans to launch the product on OLX soon. "Right now, 8-10% of our traffic uses this option, but these are very early days," says the CEO. Experts point out that while opportunity is large, the space is expected to get more crowded.

Apart from online players, more original equipment manufacturers (OEMs) are likely to set up shop adding to the current lot. "While the auto piece will grow, CarTrade should probably use its ₹750 crore cash reserves to build the non-auto business," says an industry watcher, adding it should start exploring cross-selling opportunities.



# Pant's unorthodox batting; key asset to India's chances

The local

baseball-loving

**Americans** could

soon come

across the

one-handed swat

off Pant's willow

LALITH KALIDAS New Delhi, June 2

**IN HIS FIRST** hit out in the national blues since November 2022, Rishabh Pant sparkled like he had never before in T20Is for India. Albeit a warm-up outing against a depleted Bangladesh attack, Pant looked in free-flowing touch, even unfurling a range of his ramps and scoops in sunny New York.

Feeding on T20 cricket's unique skill sets and terminologies, the local base-

ball-loving Americans could soon come across the one-handed swat off Pant's willow more often during India's Group Afixtures in New York and Florida. While he nailed a onehanded six over

long-on on Saturday, Pant's trademark shot has seen wavering results since his comeback IPL 2024 season. The chances are reasonably

high for such an occurrence, for one in every 14 deliveries that Pant played during the IPL ended up as either a one-hander or the bat falling completely off his grasp.

For the keen US enthusiasts who may take their curiosity online to understand the commonness of this 'one-handed' shot in cricket, one awaits a sea

of Pant's pictures from different angles employing the shot. Pant in Edgbaston, Pant in Delhi, in Ranchi, Dubai, and Kolkata there are elaborate compilations of the left-hander's slick shot in different jerseys and formats across continents and conditions. The distinct bottom hand (left for Pant) rests above where a regulation top hand usually occurs. At a glance, it would strike a newbie that the entire power is generated from the bottom hand, with the freed-up

top hand lending direction and distinctiveness.

Often launched in complete precipitance against attacks in Test cricket, Pant relished the highs stroke until mid-

2022, before the chinks in the shotmaking began to crop up.

Coupled with his 'falling' sweep/scoop shots to the onside, where he attempts a deliberate shuffle across the line of the stumps and somehow drags the ball behind the square of the wicket, the one-hander was found wanting. Even during Saturday's knock, 46 of Pant's 53 runs against Bangladesh were made through the on-side, underlining his tendencies.

### SRI KRISHNA PHARMACEUTICALS LIMITED CIN: U24230TG1974PLC001790 Sri Krishna (Incorporated under the Companies Act, 1956) Registered Office: C-4, INDUSTRIAL AREA, UPPAL, HYDERABAD, TELANGANA-500039

(for the attention of Equity Shareholders of the Company) Sub: Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account.

This Notice is Published pursuant to the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016. The Rules, amongst other matters, contain Provisions for transfer of all shares the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account in respect o which dividend has not been claimed by the shareholders for seven consecutive

Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has sent notices by Registered Post to the Concerned shareholders at their latest available addresses, whose Shares are liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account under the said Rules for taking

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due fo transfer to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account on its website at <u>www.srikrishnapharma.com.</u>Shareholders are requested to refer to the web-link attp://www.srikrishnapharma.com to verify the details of uncashed dividends and the shares liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund

Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any can be claimed back by them from IEPF Account after following the procedure prescribed The Members, who have not encashed the dividend for the Financial Year ended

31st March, 2017 and Subsequent years may claim the said dividend amounts or or before 4th September, 2024 by writing a letter /email to the Company at the below given address. After 4th September, 2024, the shares will be transferred to

n case the Company does not receive any communication from the Concerned shareholders by 4th September, 2024 the Company shall with a view to complying with the requirements set out in the Rules, transfer the shares to the IEPF Accoun by the due date as per procedure stipulated in the Rules n case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules

Mrs. K Manaswini For Sri Krishna Pharmaceuticals Limited Company Secretary, Sri Krishna Pharmaceuticals Limited.

V.V.Subba Reddy C-4, Industrial Area, Uppal, Hyderabad, Place:Hyderabad Telangana-500039,Tel:04027201101

### NANAI DAIRY PRIVATE LIMITED - IN LIQUIDATION CIN: U15209MH2009PTC189530 Regd. Add: G - 1, Avishkar Empress, K. W. Chitale Path, Behind Portuguese Church, adar (W), Mumbai – 400028, Maharashtra, India E-Auction Notice

Email id: cs@srikrishnapharma.com

Sale of Assets of Nanai Dairy Private Limited ('Corporate Debtor') under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 r/w IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016. Date and Time of E-Auction: 1st July, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM (With the unlimited extension of 10 minutes each) Sale of Asset of Corporate Debtor by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company

Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 13th October 2023 in I.A. 3310 OF 2023 IN C.P.(IB) No. 4455 of 2019. The sale will be done by the undersigned through the E-auction platform https://eauctions.co.in (Linkstar Infosys Private Limited) Reserve Earnest Money Incrementa Block **Details of Assets** Price Deposit Plant & Machinery collectively consisting of Milk Pro-

cessing Plant, Vacum Milking Plant with accessories, S.S. Automatic Volumetric filling machine, cream Separator tanks etc. currently at Pali Budruk, Tal.Panvel, Dist.Raigad, Maharashtra – 410 206 (Complete list as available with Liquidator mentioned in detailed Auction Process Document)		I	₹ 22,68,000/-	₹ 2,20,000/-	₹ 1,00,000/-
Last date of submission of 17th June, 2024 in the manner mentioned in detail E-auction			E-auction		
Eligibility Documents	Process Document				
Declaration of Eligibility Bidder	19th June, 2024				
Inspection of Assets of Corporate Debtor	From 20th June, 2024 to 26th June, 2024.				
Last Date for submission of Earnest Money Deposit	28th June, 2024				
Date and time of E-Auction for qualified bidders	1st July, 2024 at 11:00 AM to 02:00 PM				
Terms & Conditions of the sale is as under:  1. E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS" as such sale is without any kind of warranties					

and indemnities through approved service provider Linkstar Infosys Private Limited Contact persor on behalf of E-Auction Agency (Linkstar): Contact person: Mr. Dixit Prajapati Email idadmin@eauctions.co.in, Mobile No.: +91 9870099713. 2. Eligibility Documents shall be submitted to Liquidator through email and hard copy in the format prescribed in the detailed E-auction Process Document on or before 17th June, 2024 The bid form along with detailed terms & conditions or the complete E-auction process can be downloaded from the website https://eauctions.co.in. 3. I is clarified that this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind o binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. The Liquidator reserves the right to cancel or modify the process and/or not to accept and/or disqualify any interested party / potential investor/bidder without assigning any reason and without any liability. 4. All the terms and conditions are to be mandatorily referred from the detailed E-Auction Process Document, prior to submission of EMD and participation in the process. The Liquidator can be contacted at lignanai@gmail.com

**CA Prashant Jain** Liquidator - Nanai Dairy Private Limited Date: 03.06.2024 IBBI Reg. No: IBBI/IPA-001/IP-P01368/2018-2019/12131 Place: Navi Mumbai Email ID: ipprashantjain@gmail.com; liqnanai@gmail.com Correspondence Address: SSARVI Resolution Services LLP, B-610, BSEL Tech Park Sec. 30 A. Vashi, Navi Mumbai- 400 705 Contact No: +91 9082607703 (Call on WhatsApp)

### NOTICE Notice is hereby given to the general public that the share certificate(s) of Gujarat Gas

Limited as per the following details, has/have been reported lost/misplaced. Gujarat Gas Limited is in the process of issue of duplicate share certificate(s) to the claimant(s). Objection(s), if any, to the said issue should be communicated to the Company at its Corporate Office-2, Shanti Sadan Society, Near Parimal Garden, Ellisbridge, Ahmedabad 380006, Gujarat or to email id Investors@GUJARATGAS.com within 15 days from the

date of publication of this not	ice.			
Name of the shareholder	2001007 200000	Share Certificate Number	Number of Shares	Dist.Number To
Patel Kiritkumar Rameshchandra & Petal(Patel) Raxaben Kiritkumar	GGL0000902	58485	2500	688105126 to 688107625

The public is hereby advised not to deal in the above mentioned shares. Patel Kiritkumar Rameshchandra & Date: 01/06/2024 Patel Raxaben Kiritkumar



Dr. Lal PathLabs Limited CIN: L74899DL1995PLC065388

Registered Office: Block E. Sector-18, Rohini, New Delhi -110085 Corporate Office: 12" Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram -122001, Haryana Tel.: +91 - 124 - 3016500; Fax: +91 - 124 - 4234468 Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Notice of 30" Annual General Meeting to be held through

Video Conferencing/Other Audio Visual Means Notice is hereby given that the 30" Annual General Meeting ("AGM") of the Members of

Dr. Lai PathLabs Limited ("the Company") will be held on Saturday, June 29, 2024 at 10:00 A.M. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility, to transact the businesses as set out in the Notice of the AGM dated The AGM will be held through VC/OAVM in compliance with the applicable provisions of

the Companies Act, 2013 and applicable Rules made thereunder read with Circulars dated September 25, 2023, May 5, 2020 and other relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) from time to time, permitting the holding of AGM through VC/OAVM without physical presence of Members at a common venue, In accordance with aforesaid MCA Circulars and Securities and Exchange Board of India

Circular dated October 7, 2023 electronic copy of the Notice of 30" AGM and Annual Report for the Financial Year 2023-24 will be sent to all the Members, whose e-mail address is registered with the Company/ Depository Participant(s). If you have not registered/ updated your email address with the Company/ Depository

Physical Holding, if any	Register/ Update the details in prescribed Form ISR-1 and other relevant Form(s) with the Registrar & Transfer Agent (RTA) of the Company, Link Intime India Private Limited at delhi@linkintime.co.in  Members may also refer to Frequently Asked Questions ("FAQs") available on the Company's website at https://www.lalpathlabs.com/pdf/faqs.pdf
Demat Holding	Contact your Depository Participant (DP) and register your email address as per the process advised by your DP.

websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice of 30" AGM will also be available on the website of E-voting Agency i.e. CDSL at www.evotingindia.com The Members will have an opportunity to cast their vote electronically on the businesses set out in the AGM Notice through remote e-voting and/or e-voting during the AGM. The

detailed procedure of remote e-voting and/or e-voting during the AGM by Members holding shares in Physical mode, if any and Members who have not registered their

email ID with the Company, will be provided in the AGM Notice. The Members may please note that the Board of Directors of the Company in their meeting on Friday, May 10, 2024 recommended a Final Dividend of Rs. 6/- per equity share for the Financial Year 2023-24, subject to the approval of Members at the 30" AGM. The Final Dividend, if approved, will be paid to Members whose name appears

For receiving dividend directly in bank accounts, Members are requested to update their complete bank details (i) with their Depositories (where shares are held in dematerialised mode) and (ii) with the RTA (where shares are held in physical mode) at delhi@linkintime.co.in by providing the relevant details/ documents as prescribed in

in the Register of Members as on Monday, June 10, 2024 (Record Date).

Place: Gurugram

Date: June 1, 2024

Vinay Gujral Company Secretary & Compliance Officer

For Dr. Lal PathLabs Limited



New Delhi

जनसता

## देश

### संविधान सर्वोच्च, अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहें : राज्यपाल

जयपुर, 2 जून (भाषा)।

के मान्यम से की जाएगी।

कर्जदार(मो)/

/ गार्श्टर(ओ)

शीमती

(प्रीसंबट नंबर

आईएल10025376

श्रीमती सीमा

(ऑस्पेक्ट नंबर

श्री निशांत

. श्रीमती

(मॉरपंक्ट नकर

mit/01/02/68773

र्मजित

834858)

हमतेश

सह-कर्जदार(ओ)

मांग सूचना तिथि और राशि

11-अक्टूबर-2023 और

रुपये बारह लाख पील हजार पीर

बोली वृद्धि गशि

(रुपये बीस इलार मात्र)

१७-नवम्बर-२०२३ और

7.18,71,630/-

प्रतारह लाख इकहरार इजार छह

सी लील रुपए मात्र)

बोली बृद्धि समि

#.20.000 / -

(बीस हजार डपए सज

१०--अक्टूबर--२०२३ और

बोली वृद्धि गति

8:25,000 /-

(पत्चीस हजार रुपए मात्र)

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि

14 जून 2024 1100 बजे-1400 बजे

लागले. प्रमार राजी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे।

के अधीन सम्पति जो किसी सति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

स्थान : गाजियाबाद , सिथि : 03 जून 2024

आर.सी. सं: 78/2019

सहित) जब्द कर ली जाएनी और सम्पति की बिक्री दोबारा की जाएनी।

विवति में आईआईएफएल-एचएकएल के एवो का निर्णय वितिम माना जाएगा

हैं जाएगी और बंकामा शक्ति, यदि सोई, स्वान और लागल सहित बसूल की जाएगी।

कर्यालय में जम्म / प्रेषित करना होगा

आगे बढ़ जाएगा।

राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने संविधान को सर्वोच्च बताते हुए अधिकारों के साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहने का रविवार को आ''ान किया। उन्होंने कहा कि संविधान भारतीय जीवन मुल्यों का जीवंत दस्तावेज है। उन्होंने संविधान की मूल प्रति पर उकेरे चित्रों की चर्चा करते हुए कहा कि इनमें भारत के इतिहास और संस्कृति के साथ महान जीवन मूल्यों का ओज समाया हुआ है।

मिश्र ने तेलंगाना के स्थापना दिवस के मौके पर राजभवन में दक्षिणी राज्य के लोगों से मुलाकात के दौरान यह टिप्पणी की। राज्यपाल ने तेलंगाना के लोगों को राज्य के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं भी दीं। एक बयान के मुताबिक, मिश्र ने कहा कि तेलंगाना ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत समृद्ध प्रदेश है। उन्होंने तेलंगाना में नवाचार और उद्यमिता के प्रयासों की सराहना की तथा इसके विकास की कामना की।

ई-नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट – IV ए) (नियम 8(6))

आईआईएफएल होन फाइनैंश लिमिटेल (पूर्वत: इंडिया इन्फोलाइन हाएसिंग फाइनैंस लिमिटेल के नाम से झात) (आईआईएफएल एचएफएल) कर्णारेट कार्यालय : प्लॉटनंबर 9

उद्योग विहार, फेंज-4. पुरुपाम-122015 (हरियाणा) और के पास बंधक अवल सम्पत्ति की विकी विलीय आरितयों का प्रतिमतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिमतिक्रित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002(इसमें आगे अधिनियम कहा गया हैं) के तहत। जबकि आईआईएफएल- एसएफएल के प्राधिकृत अधिकारी ("एओ") ने निम्नलिखित ऋण खातों / प्रीस्पेक्टर नंबर्स में

(शिनियम की धारा 13/2) के तहत निम्म वर्णित सम्पत्ति/सम्पत्तियों का कब्जा उनको आईआईएफएल- एवएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए 'जैसी हैजहा है एवं जैसी

जो है आधार' पर बेचने के अधिकार सहित प्रान कर लिया था। अबोहस्ताकरी द्वारा यह विकी वेबसाइट www.iiflonebome.com, पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलानी प्लेटफार्म

कचल सम्पतित / प्रतिमृत कास्ति का वर्गन

लपति का वह सभी हिस्सा किसमें लाइट फ्लैंट गंबर एसएफ-4. दूर

पत्नीर, लेक्ट हैंड साइंड वैक (बिना छत के अभिकार के), प्लींट नंबर

ली-202, फ्लेट बेंद विहार, लोगी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201302

शामिल है। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में) संपत्ति का प्रकार क्षेत्र, कारपेट एरिया

संपत्ति का यह हिस्सा जिसमें पसेंट नंबर यूजीएक-४, ऊपरी ग्राउंड पर्जार

जिना छत से दाएं पीछे आरएकएस, एमडाईची, फ्लॉट नंबर-सी-क्रब ए

वीएलएक अंक्र्र विवार, गांव सायुक्ताबाय, तहसील लोगी, गांजियाबाय

शेत्रणय (वर्ग फीट में) संपत्ति का प्रकार भूमि-क्षेत्र कारपेट-क्षेत्र संपत्ति

लंपति का वह हिस्सा और पार्शन जिसमें प्रथम तत है. जिन्ह धन / टेरेस

विकारों के प्लॉट नंबर 8 वाली निर्मित संपत्ति के दाई ओर प्रसंप नंबर

12 / 15 में से मेटियाला गांव की राजस्व संग्रहा में स्थित जाबादी क्षेत्र

जिसे सेवक पार्क किय विहार, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110050 के नाम

हे जाना जाता है। क्षेत्र माप (वर्गे कीट में): शपनि का प्रकार क्षेत्र–गाप,

चुगतान की विधि : ईएमडी मुगतान केवल ऑगलाइन विधि से करने होंगे। मुगतान करने के लिए लाप https://www.iiflonehome.com पर जाएं और केवल सम्परित / प्रतिभ

शस्ति के लिए उपलब्ध सिंक के माध्यम से भुगतान करें। नीट : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भुगतान लिंक है। लाप सुनिश्चित करें कि आप उस -सम्पत्ति ∕ प्रतिभृत आरि

हं माध्यम से करना होगा। खाला विवरण निम्नानुसार है - क) खाले का नाग - आईआईएफएल होम काइनैंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम - श्टैंबर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, - ग) खाल

है-नीसमी में भाग लेने के लिए इच्छुक बोसीदावाओं को अपना किरुष्ट सेव प्रदारा https://www.iiflonchome.com के पास पर्योच अधिम में पंजीवृत करवान होगा तथा लीनइन सारा

बोलीदाता अपनी ऑकर करलम बोलीवृद्धि शशि में बर्जित राशि के दुशजों में बद्धा सकते हैं। नीलामी समाप होने से 5 मिनट पहले कोई बिट आने पर रामाध्य का समय स्वतः 5 मिन

खरीदार को सम्प्रतित के साथ संबंधित उपकर, लागूनटामा दवूटी, फीस तथा अन्य करनुमी बकाया अन्य कराया जैसे कि म्यूनिशियलकर बिजली प्रभार, मूनि तथा अन्य सभी अनुमे

बोलीदाताओं कोई-मीलामी बिक्री प्रक्रियाओं में मान क्षेत्रे के लिए अपनी बोली जमा करने से पहले मीलामी बिक्री के विच्लत नियमों एवं शतों तथा आवेदन प्रपत्र के लिए वेबसाहर

केरता विकरण सहावता प्रक्रिया तथा है.-पीलापी के संबंध में ऑपलाइन प्रक्रियण के लिए संपालित केलीवाता संवाधदाता की ई.-पेल आईळ : caremiiflonchome.com, सपीर्ट हेल्पला

किसी सम्पति विवरण, सम्पति निरीक्षण और जीनलाइन किंव इत्पादि के संबंध मेहलताल के लिए आईआईएफएल एकएफएल टील फीनबर 1800 2872 480 पर सीमवार से शुक्रवार के की

एतद्वाच जगरोक्त कर्जदार्श को सक्ता दी जाले हैं कि मौतिक करता लेले समय प्रतिमृत आर्थित में एकी परेलु वस्तुए 7 दिन के मीतर इटा लें, अन्वया आईआईएकएल एवएकएल परिस्थितिय

शकल बेलींदाना / गीलामी करीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के मीतर भूगतान में चुक की रिवलि में विकी रदय कर दी जाएंगी तथा पहले जन्म की जा जुकी राति (हेएम

इको का किंच कोई कररण बताए निविदा / गीलांगी रूपनित / निरस करने या नियम एवं शर्ती में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा / गीलांगी के संबंध में किसी भी विवाद

सरकंसी अधिनियम, 2002 के नियम 9 ग्रंप नियम (1) के तहत 15 दिनों की बिकी सूचन

रुनंदार को अधिसुधित किया जाता है कि उपरि वर्षित राशि अधान ब्याज और अनुषयी खर्चों के साथ निविदा / नीजानी की तिथि से पहने कर दें जिसमें असफल रहने पर सन्पत्ति वेथी / नीजा

जम्मू एंड करमीर बैंक विरुद्ध मैसर्स उत्तम बिल्डर्स

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय-भुग्तेय ऋण वसूली अधिनियम 1993 के साथ पठित

आय कर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अंतर्गत विक्रय की उद्घोषणा

1. जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—। द्वारा टीए संख्या 52 / 12 दिनांकित 25.02.2019 के अंतर्गत वसूली प्रमाणपत्र संख्या 78 / 2019

का, रु. 6,10,94,010.97 (रुपये छह करोड़ दस लाख चौरानबे हजार दस तथा सत्तानबे पैसे मात्र) की एक राशि और इसके वसूलीकरण तक

31.03.2014 से प्रभावी 17% वार्षिक की दर पर भावी ब्याज तथ पेंडेलाइट ब्याज के साथ तथा वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार लागतों एवं शूलकों के साथ

और जबिक यहां रु. 6,10,94,010.97 (रुपये छह करोड़ दस लाख चौरानबे हजार दस तथा सत्तानबे पैसे मात्र) की एक राशि 31/03/2014 से

प्रभावी होकर 17% वार्षिक की दर पर साधारण ब्याज के साथ बकाया होगी। एतद्दवारा सूचना दी जाती है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव

में, नीचे दी गई संपत्ति / संपत्तियों को ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा और बोलीदान जो है वह वेबसाइट http://drtauctiontiger.net के माध्यम से

12-07-2024 को दोपहर 12.00 बजे से अपराह्न 01.00 बजे के बीच, अपराह्न 01.00 बजे के उपरांत 10 मिनटों की अवधि के विस्तारों के साथ, यदि

. ईएमडी का भुगतान डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रिकवरी ऑफिसर, डीआरटी–1, दिल्ली–खाता आर.सी. नंबर 78/2019 के पक्ष में पहचान–पत्र

(वोटर आईकार्ड / ड्राइविंग लाइसेंस / पासपोर्ट) की स्व-सत्यापित प्रति के साथ किया जाएगा, जिसमें भविष्य के संचार के लिए पता और पैन कार्ड की

स्व-सत्यापित प्रति होनी चाहिए जो वसूली अधिकारी, डीआरटी-।, दिल्ली के कार्यालय में अधिकतम 08-07-2024 को सायं 5.00 बजे तक या इससे

पहले अवश्य पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद प्राप्त ईएमडी पर विचार नहीं किया जाएगा। सफल बोलीदाताओं की स्थिति में उक्त जमा राशि को

समायोजित कर लिया जाएगा। असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों के बंद होने पर ई-नीलामी सेवा प्रदाता / बैंक / वित्तीय संस्थान से ऐसी

ईएमडी वाले लिफाफे पर प्रेषक के विवरणों अर्थात पता, ई–मेल आईडी और मोबाइल नंबर इत्यादि के साथ ''आर.सी. नं. 78/2019'' शीर्ष पर लिखा

इच्छुक बोलीदाताओं के पास ई–नीलामी में भाग लेने के लिए एक वैध लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ईमेल पता और पैन नंबर होना चाहिए। लॉगिन आईडी

और पासवर्ड के संबंध में अधिक जानकारी के लिए कृपया मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद, संपर्क नंबर

079-40230812 / 11 / 10 / 09 / 08 / 07 / 06 मोबाइल 09002715034, ई-मेल : wb@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net से संपर्क करें।

संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और पहले से ही यूजर आईडी / पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट

10. जो बेचने का प्रस्ताव है वे अधिकार हैं जिनके लिए प्रमाणपत्र देनदार संपत्तियों के संबंध में हकदार हैं। संपत्तियों को देनदारियों, यदि कोई हो,

के साथ बेचा जाएगा। उदघोषणा में दर्शाई गई संपत्तियों की सीमा, वसली प्रमाणपत्र अनुसूची के अनुसार है। वसली अधिकारी किसी भी कारण

से सीमा में किसी भी बदलाव के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। संपत्तियों की बिक्री "जैसी हैं जहां हैं" और "जैसी हैं जो हैं" शर्त पर की जाएगी।

इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बैंक के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें तथा संपत्ति के विवरणों,

1. संपत्ति का निरीक्षण संभावित बोलीदाता(ओं) द्वारा बिक्री की तिथि से पहले किया जा सकता है, जिसके लिए बैंक के उपर्युक्त अधिकारी से संपर्क

12. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास किसी भी या सभी बोलियों को अनचित पाए जाने पर स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना कोई कारण बताए किसी

13. असफल बोलीदाताओं की ईएमडी, पहचान साक्ष्य जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, वैध ड्राइविंग लाइसेंस या सरकार और पीएसयू

द्वारा जारी फोटो पहचान-पत्र की पहचान / प्रस्तृति पर बोलीदाता द्वारा डीआरटी-। की रजिस्ट्री से प्राप्त की जाएगी। असफल बोलीदाता अपनी

ईएमडी की वापसी सुनिश्चित करेंगे और तत्काल वसूली अधिकारी, डीआरटी–।, दिल्ली/रजिस्ट्र, डीआरटी–1 अथवा बैंक से संपर्क करेंगे।

14. बिक्री, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लिखित है, उपरोक्त नामित सीडी की संपत्ति की होगी और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियां और

15. संपत्ति को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लॉट्स के अंतर्गत बिक्री के लिए रखा जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली राशि, संपत्ति के एक हिस्से की

बिक्री से प्राप्त हो जाती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। बिक्री को तब भी रोक दिया जायेगा, यदि किसी भी लॉट को

रखने से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लिखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी के पास प्रस्तुत कर

दी जाती है या उनकी संतुष्टि के लिए यह प्रमाण दे दिया जाता है कि ऐसे प्रमाणपत्र की राशि, ब्याज और लागतों का अधोहस्ताक्षरकर्ता को

16. कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो बिक्री के संबंध में हालांकि कोई कर्तव्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निभा रहा है, वह बोलीदान नहीं कर

17. बिक्री जो होगी वह आय कर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची और उसके अंतर्गत विरचित नियमावली में निर्धारित शर्तों और आगे की

किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उद्घोषणा में हुई / होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण-विवरण या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे।

18. जिस राशि से बोलीदान बढ़ाया जाना है, वह रु. 5,00,000 / – (केवल पांच लाख रुपये) के गुणक में होगी। बोली की राशि या बोलीदाता के

19. सफल / उच्चतम बोली लगाने वाले को किसी भी लॉट का क्रेता तब घोषित किया जाएगा बशर्ते कि उसके द्वारा बोलीदान की गई राशि आरक्षित

20. सफल/उच्चतम बोलीदाता को ई–नीलामी की समाप्ति के उपरांत अगकल कार्यदिवसों पर और बयाना राशि (ईएमडी) को समायोजित करने के

मुल्य से कम न हो / कम नहीं है। यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के विवेक पर होगा कि वह उस स्थिति में उच्चतम बोली की स्वीकृति को अस्वीकार

उपरांत वसूली अधिकारी, डीआरटी–1, दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 78/2019 के पक्ष में बिक्री आय की 25 प्रतिशत राशि का डीडी/पे ऑर्डर

तैयार करना होगा और इसे वसूली अधिकारी के कार्यालय में इस प्रकार भेजना / जमा करना होगा ताकि यह ई-नीलामी की समाप्ति से 3 दिनों

21. सफल/उच्चतम बोलीदाता को बिक्री आय का शेष 75 प्रतिशत, संपत्ति की बिक्री की तिथि से 15 वें दिन या उससे पहले, ऐसे दिन को छोड़कर,

या यदि १५वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो १५वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर, वसूली अधिकारी, डीआरटी—। के पास वसूली

अधिकारी, डीआरटी—1, दिल्ली, खाता आर.सी. नं. 78/2019 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से रजिस्ट्रार, डीआरटी—। दिल्ली के पक्ष

में रु. 1,000 / – तक की राशि पर 2 प्रतिशत की दर से और रु. 1,000 / – से अधिक की ऐसी कुल राशि पर 1 प्रतिशत की दर से जुर्माना शुल्क जमा करना होगा। (डाक के माध्यम से शेष 75 प्रतिशत राशि जमा करने की स्थिति में वह उपरोक्तानुसार वसली अधिकारी के पास पहुंचनी चाहिए)।

बिक्री के खर्च को चुकाने के बाद जमा राशि, यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता को ठीक लगता है, सरकार के पास जब्त की जा सकती है और चूककर्ता

किसी भाग पर 🏻 के विवरण, जो

मल्यांकित राजस्व कि संपत्ति पर हैं

कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई

वसूली अधिकारी

22. निर्धारित अवधि के भीतर भूगतान में चुक की स्थिति में, बिक्री की नई उदघोषणा जारी होने के बाद संपत्ति का पुनर्विक्रय कर दिया जाएगा।

संपत्ति की अनुसूची

खरीदार के संपत्ति से संबंधित या इसे बेचकर अर्जित होनेवाली राशि के किसी हिस्से से संबंधित समस्त दावे जब्त हो जाएंगे।

**लॉट उस संपत्ति के विवरण जिसे उस स्थिति में सह-स्वामियों के नामों के साथ** संपत्ति अथवा उसके किसी ऋणभार

निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी : संलग्नित अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण हालांकि अधोहस्ताक्षरकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार वर्णित

का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीतानी के मध्यम से खरीदना बाहते हैं। शेष भुगतान के लिए सफल बोली के बाद, आपको भुगतान आरटीजीएस / एनईएफ

वर : 9902879 ऑस्पेक्ट नंबर द्वारा अनुसरित, 'घ) जाईएफएससीकोड :- एससीबीएल0036001 ञ) बैंक गता : स्टेंडडे चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. रोस. फोर्ट. मुम्बई-400001,

ईएमडी अतिम तिथि

18 जून 2024 2024 अप. 5 बजे तक

निर्मित-क्षेत्र, कारपेट-क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र' 450.00, 430.00, 366.00

elufft eine 325.00. 360.00 i

रामक बोलीहरू को बोलीशामि की 26 प्रतिकृत शांकि (ईएमबी कावरोजन के बाद) एवं दारा बोलीमान खीकार करने के 34 पंटे के मील

https://www.iiflonchome.com কথা https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction ইতান কী দত্তত বী ভাগতি है।

एतदृद्वात कर्जदारी को आगे सूचना दी जाती है कि उपलेक्त वस्तुए प्राप्त कर ने मैं चुक की स्थिति में उनको विधि सम्मतदंग से बेन्द जाएगा।

वसूली अधिकारी का कार्यालय

ऋण वसूली न्यायाधिकरण-।, दिल्ली

चतुर्थ तल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

**सीडी1 : मैसर्स उत्तम बिल्डर्स** (पंजीकृत), बी–10 / 1, राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली–110027, अपने स्वामी के माध्यम से।

और जबिक अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त प्रमाणपत्र से संतुष्ट होकर के निम्नानुसूची में वर्णित संपत्ति के विक्रय का आदेश दे दिया है।

सीडी2: सतपाल बब्बर डब्ल्यू/ओ श्री शंकर दास, निवासी 9/4 राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110027

सीडी3: रीता बब्बर डब्ल्यू/ओ श्री सतपाल दास, निवासी 9/4 राजौरी गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली-110027

संपत्ति का विवरण

रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद सीधे रजिस्ट्री, डीआरटी-।, दिल्ली से ईएमडी वापस प्राप्त कर सकेगा।

टेक्नोलॉजीज लिमिटेड– ऑक्शनटाइगर से उपरोक्त ई–नीलामी में बोलीदान करने के लिए अनिवार्य है।

दावे, जहां तक उनका पता लगाया गया है, वे हैं जो प्रत्येक लॉट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

सकता, बेची गई संपत्ति में कोई हित उपार्जित नहीं कर सकता अथवा उपार्जित करने का प्रयास नहीं कर सकता।

संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, लॉट को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जायेगा।

कर दें, जब प्रस्तावित कीमत स्पष्ट रूप से इतनी अपर्याप्त हो कि बोलीदान करना ही अनुचित प्रतीत होता हो।

के भीतर वहां पहुंच जाए। ऐसा न करने पर बयाना राशि (ईएमडी) जब्त कर ली जायेगी।

बेचा जाना है, जहां संपत्ति चूककर्ता तथा सह–स्वामियों के रूप में किसी

अन्य व्यक्ति से संबंधित है

सं. डब्ल्यूजेड–88 धारक संपत्ति, राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली

आज 31/05/2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा मुद्रा के अंतर्गत निर्गत

प्रमाणपत्र देनदारों के अनुसार लागत का भी भूगतान करने के लिये, आहरण किया गया।

आवश्यकत हुआ तो, "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोलीदान" के माध्यम से संपन्न होगा।

सं. डब्ल्यूजेड–88 धारक संपितत, राजा गार्डन, रिंग रोड, नई दिल्ली

ई-नीलाम किये जाने हेतु प्रस्तावित संपत्ति के विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैं

संबंधित बैंक अधिकारियों के विवरण / हेल्पलाइन नंबर इत्यादि निम्नानुसार हैं

आफताब अहमद, एसोसिएट एग्जीक्युटिव, विधि विभाग

ऋणभारों इत्यादि की पहचान और शुद्धता की भी जांच कर लें।

भी समय नीलामी स्थिगित करने का अधिकार सुरक्षित है।

नाम एवं पदनाम

लेनदार द्वारा विज्ञी की पृष्टि की विधि से 15 दिन के मीतर जन्म करनी होगी लगी जन्म और नगतान निर्धारित विधि से करने होंगे

08.20 बजे से 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल : care@iiffonehome.com, को मेल लिखें।

201102, जतार प्रदेश, भारत शामिल है।

### भाजपा के शीर्ष नेताओं से दिल्ली में मुलाकात कर सकते हैं नीतीश कुमार

नई दिल्ली, 2 जून (ब्यूरो)।

लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविवार को दिल्ली पहुंचे। नतीजा पूर्व सर्वेक्षण के बाद बिहार के मुख्यमंत्री की दिल्ली यात्रा के बारे में जनता दल (एकी) नेताओं का कहना है कि यह तयशुदा कार्यक्रम के तहत है।

संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेताओं से मुलाकात में विशेष राज्य का दर्जा समेत दूसरे पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। दिल्ली पहुंचने के बाद एअरपोर्ट पर राजग की सरकार बनने को लेकर पूछे एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार ने कहा बनेगी, जरूर बनेगी। नाम का खुलासा नहीं करने की शर्त पर पार्टी के नेताओं ने बताया कि नीतीश कुमार अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि वित्त आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल 10 जन को पटना आ सकता है।

सुरक्तित मूल्य

लाख चौरासी हजा

रुपवं मात्र)

धरोहर राशि जमा

T-48.400/-

महतालीस क्यान चार

ल आहा आहा रूपरे

धरोहर तकि जमा

F.80,000 /

#.10.80.0007-

वस लाख अस्ती छवा

(ईएमडी)

天1.08.000/-

fe yes with and sun

भीतिक कब्जे की तिथि

विनाक ००-म्य-२०२४ तक

T.15.10.695/

पढ़ह लाख वस हजार घट

गी पंचानमें रापये मात्र)

26-मान-2024

दिशाक 03-माई-2024 राक

8.22,02,808/

(कंग्रल बाईस शरक यो छजा)

छड सी आठ रूपये)

20--मार्च-2024

दिनांक 08-मई-2024 तक

कुल बकाया

tt. 21,72,064/-

(रू. इवकीस साख बहातर

हजार चौसठ माज)

ई-नीलामी की विधि/समय

21 जून 2024 1100 क्ले-1300 कले

हस्ताः /-प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैस लिमिटेड

आरक्षित मूल्य

₹. 7,61,00,000/-

ईमेल एवं दूरभाष नंबर्स

ईमेल : iapmd.del@jkbmail.com, मोबाइल नंबर 9899111390

दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति

हेतु अग्रसारित किया गया है,

तथा इसकी प्रकृति एवं मृल्य का

कोई अन्य ज्ञात विवरण

ऋण वसुली अधिकारी-।, दिल्ली

विक्रय

उद्घोषणा

फॉर्म नं. आईएनसी-26 [कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30 के

केंद्र सरकार उत्तरी क्षेत्र पीठ, दिल्ली के समक्ष कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 की उपधारा

। और कंपनी (निगमन) नियम 2014 के नियम 30

की उपधारा (5) के खंड (ए) के मामले में

मेसर्स पीएमडब्ल्यू मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, जिसका पंजीकृत कार्यालय 68, प्रथम तल, संदेश विहार पीतमपुरा, दिल्ली, भारत, 110034 में है आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र प्तरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है जेसमें 21 दिसंबर 2013 को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के कंपनी ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की गई है। कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय -दिल्ली राज्य- से -हिमाचल प्रदेश राज्य-नें बदलने में सक्षम बनाने के लिए 14 मई 2024 को अधिसूचना जारी की गई।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत प्रपत्र भरकर एमसीए पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जमा कर सकता है या अपने आपत्तियों को हलफनामे के साथ पंजीकृत डाक से भेज सकता है, जिसमें उसके हित की प्रकृति और विरोध का आधार बताते हुए बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओं कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 पर क्षेत्रीय निदेशक को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों के भीतर एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेज सकता हैः **पंजीकृत कार्यालय का पताः 68**, प्रथम तल, संदेश विहार पीतमपुरा, दिल्ली, भारत,

आवेदक पीएमडब्लू मेटल एंड अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड की ओर से जगदीश प्रसाद कामानी दिनांक : 03.06.2024 (निदेशक) डीआईएन : 00516043 Dr Lal Path Labs

डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

CIN: L74899DL1995PLC065388 पंजीकृत कार्यालयः ब्लॉक ई, सेक्टर-18, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 कॉरपोरेट कार्यालयः 12वीं मंजिल, टॉवर बी, एसएएस टॉवर, मेडिसिटी, सेक्टर-38, गुरुग्राम-122001, हरियाणा फोनः +91 124 3016500 । फैक्सः +91 124 4234468 वेबसाइटः www.lalpathlabs.com. ई-मेलः cs@lalpathlabs.com

वीडियों कांफ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों के माध्यम से आयोजित की जाने वाली 30वीं वार्षिक आग बैठक की सूचना

लदद्वारा यह सुचना दी जाती है कि एजीएम की सुचना दिनांक 10 मई, 2024 में निर्धारित व्यवसायों को संपादित करने के लिए डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों की 30वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शनिवार, 29 जून, 2024 को 10.00 बजे प्रात: वीडियो कांक्रोंसिंग / अन्य ऑडियो विजुअल ("वीसी / ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जायेगी। कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए लागू नियम और कॉरपोरेट मामलो के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपन्न संख्या दिनांक 25 सितंबर, 2023 5 मई. 2020 तथा अन्य प्रासंगिक परिपत्र जो एक स्थल पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम करने की अनुमति देते हैं, के अनुपालन मे एजीएम को वीसी/ओएसीएम से आयोजित किया जाएगा।

उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड परिपत्र दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 के अनुसार 30वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तिय वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक प्रति उन सभी सदस्यों के पास भेज दी जायेंगी जिनके ई-मेल पते कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट्स के साथ पंजीकृत हैं।

यदि आपने अपना ई-मेल पता कम्पनी / डिपॉजिटरी पार्टीसिपैंट्स के साथ पंजीकृत नहीं किया है तो इसे पंजीकृत / अपडेट करने के लिए कृपया निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें

भौतिक चारण, निर्धारित प्रपन्न आईएसआर--1 एवं अन्य प्रासंगिक प्रपन्न(जों) में विवरण को कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं अन्तरण एजेंट (आरटीए) लिंक इनटाइम इंडिया यदि है प्राइवेट लिमिटेड <u>delhi@linkintime.co.in</u> पर पंजीकृत / अपडेट करें | सदस्य कम्पनी की वेबसाइट https://www.lalpathlabs.com/pdf/faqs.pdf पर उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") का संदर्भ भी ले सकते हैं।

अपने डिपॉजिटरी पार्टीसिपैंट (डीपी) से सम्पर्क करें और अपना ई-मेल पता अपने डीपी द्वारा परामर्शित प्रक्रिया के अनुसार पंजीकृत करें।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि 30वीं एजीएम की सूचना तथा वित्त वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट <u>www.lalpathlabs.com</u> तथा स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर उपलब्ध रहेगी। 30वी एजीएम की सूचना ई-वॉटिंग एजेंसी अर्थात् सीडीएसएल की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध रहेगी

सदस्यों को एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों पर अपना मतदान करने की सुविधा रिमोट ई-वोटिंग और/अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी। भौतिक पद्धति से शेयर धारण करने वाले सदस्यों यदि है और जिन सदस्यों ने कंपनी के साथ अपने ई-मेल पता पंजीकृत नहीं कराया हैं उनके लिए रिमोट ई-वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराई जायेगी।

सदस्य कृपया ध्यान दें कि कम्पनी के निदेशक मंजल ने शुक्रवार, 10 मई, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रु. 8 / - प्रति इक्विटी शेयर के अन्तिम लाभांश की सिफारिश की है जो 30वीं एजीएम में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन होगी। अन्तिम लाभांश, यदि अनुमोदित होता है, तो इसे उन सदस्यों को प्रदान किया जायेगा जिनके नाम सोमवार, 10 जून, 2024 (रिकार्ड तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज होंगे।

बैंक खाते में लाभांश सीधा प्राप्त करने के लिए सदस्य कृपया अपना सम्पूर्ण बैंक विवरण (i) अपने डिपॉजिटरी (जिन सदस्यों के पास शेयर अभौतिक पद्धति में हैं) तथा (ii) आरटीए (जिन सदस्यों के पास शेयर भौतिक पद्धति में हैं) के साथ प्रपत्र आईएसआर--1 में निधारित के अनुसार प्रासंगिक विवरण / दस्तावेज delhi@linkintime.co.in पर उपलब्ध कराते हुए अपडेट करा लें।

क्ते डॉ. लाल पैथलैब्स लिमिटेड

स्थानः गुरुग्राम

तिथि: 1 जून, 2024

विनय गुजराल कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

# नैनीताल बेंक

शाखा - ८/३३, चौखण्डी रोड, तिलक नगर, नई दिल्ली-११००१८ फोन नं.: 011-25987475

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्तियों हेत्)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता नैनीताल बैंक, 8/33, चौखण्डी रोड, तिलक नगर, नई दिल्ली-110 0 18 शाखा का प्राधिकृत अधिकारी है तथा सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल ऐसेट्स एण्ड , इनफोर्स मेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (SARFAESI) एक्ट 2 0 0 2 के सेक्शन 13( 2 ) के नियम 3 के अधीन 60 दिन की अवधि का डिमान्ड नोटिस निम्नलिखित ऋणियों तथा जमानतियों को जारी कर चुका है। यह कि ऋणी/जमानती ऋण का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ रहे अत : अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 13( 4 ) व रूल 8 एवं 9 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सम्पत्ति का जो है जहां है जैसे है के आधार पर दिनांक 30.05.2024 को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणियों/जमानतियों तथा सामान्य रूप से सम्पूर्ण जनता को सावधान किया जाता है कि निम्नलिखित सम्पत्ति से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लेन–देन न करें। सम्बन्धित लेन–देन दि नैनीताल बैंक लि0 के संबंधित ऋणियों/ जमानतियों पर देय धनराशियों तथा उस पर देय ब्याज एवं अन्य सम्बन्धित खर्चें की सीमा तक बैंक प्रभार के अधीन होंगे। उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसम्पत्तियों को मुक्त कराने में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा–13 की उपधारा ( 8 ) के प्रावधान को आकर्षित किया जाता है ।

ऋणी/जमानतियों का नाम एवं पता

1. जयमोल बिनोई पत्नी बिनोई कुरियन (कर्जदार), नि० फ्लैट नं. ८४ए, न्यू डीडीए जनता फ्लैट्स, प्रथम तल, शिवाजी एन्क्लेव एक्सटेंशन, टैगोर गार्डन, पश्चिमी दिल्ली–110027 2. बिनोई कुरियन पुत्र कुरियन थॉमस (कर्जदार), नि0 फ्लैट नं. ८४ए, न्यू डीडीए जनता फ्लैट्स, प्रथम तल, शिवाजी एन्क्लेव एक्सटेंशन, टैगोर गार्डन, पश्चिमी दिल्ली–110 0 27 (डिमान्ड नोटिस दिनांक 14.03.2024 को रु. 11,37,969.30 (रुपये ग्यारह लाख सैंतीस हजार नौ सौ उनहत्तर एवं पैसे तीस मात्र दिनांक 13.03.2024 तक) दिनांक 14.03.2024 से आगे का ब्याज एवं अन्य खर्चे (घटायें वस्ली, यदि कोई हो) जारी किया जा चुका है।

दृष्टिबन्धक/बन्धक सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण : बंधक अचल सम्पत्ति के सभी भाग व हिस्से जो कि फ्लैट नं. ८४ए, न्यू डीडीए जनता फ्लैट्स, प्रथम तल, कैट-सी, ग्रुप-2, शिवाजी एन्क्लेव एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110027 में स्थित है। सम्पत्ति उप निबन्धक-।।, बसई दारापुर, नई दिल्ली के कार्यालय में बही नं. 1, खण्ड नं. 25518, पेज नं. 93-98, क्रमांक 5077 दिनांक 16.06.2021 में जैयमोल बिनाई एवं बिनोई क्रियन के नाम पर दर्ज है। सीमाऐं (मूल्यांकन रिपोर्ट दिनांक 09.12.2022 के अनुसार) - उत्तर में फ्लैट नं. 85, दक्षिण में फ्लैट नं. 83, पूरब में खुला स्थान, पश्चिम में फ्लैट/प्रवेश द्वार।

स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 03.06.2024

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एसएआरबी-नई दिल्ली, द्वितीय तल, आत्मा राम भवन, 1, टॉल्स्टॉय मार्ग, नई दिल्ली-110001

मांग सूचना

पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफासी अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत।

उधारकर्ता नामतः मैसर्स द ब्रुक्स इंटरनेशनल ने शाखा कार्यालय : गुरुग्राम के माध्यम से सिडबी से ऋण सुविधायें / ऋण प्राप्त किये थे। ऋण सुविधायें / ऋण यहां नीचे अनुसूची में उल्लिखित दृष्टिबंधन के माध्यम से विधिवत प्रतिभूत किये गये हैं। चूंकि उधारकर्ता ऋणा करार की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और उन्होंने समय पर ऋण का प्रतिभुगतान करने में चूक की है और बकाया राशियों के भुगतान में अनियमितता प्रदर्शित की है, इसलिये उनके ऋणों को आरबीआई के दिशा–निर्देशों के अनुसार 09 दिसंबर 2023 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। उपरोक्त ऋण सुविधाओं के अंतर्गत कुल बकाया ऋण और सिडबी के पास प्रभारित / बंधककृत प्रतिभूतियों का उल्लेखन निम्नलिखित तालिका में किया गया है और उसी बकाया राशि पर भावी ब्याज भी लागू अनुसार भुगतानयोग्य होगा और यह ऋण स्वीकृति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार संबंधित तिथियों से प्रभावी

क्रम सं.	उधारकता / गारटाकता / दृष्टिबंधककर्ता का नाम पूरे पते के साथ	बकाया ऋण साश + 10 / 05 / 2024 के अनुसार लागू ब्याज	अनुसूची — दृष्टिबंधककृत परिसंपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण
1.	द ब्रूक्स इंटरनेशनल (अपने एकमात्र स्वामी के माध्यम से), पता : एफ—4, सेक्टर डी1, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201103	₹ 1,66,88,833.00	ऋण अनुबंध में वर्णितानुसार उधारकर्ता की परियोजना से संबंधित उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियां तथा जो मैसर्स द ब्रूक्स इंटरनेशनल, एफ–4, सेक्टर–डी1, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201103
2.	श्री तरुण जैन पुत्र श्री केवल प्रकाश जैन, निवासी एफ—13/3, ऊपरी भूतल, मॉडल टाउन पार्ट—2, उत्तर—पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110009		में स्थित हैं, जिसमें उसकी चल संपत्ति, संयंत्र, मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर्स, फर्नीचर और फिक्सचर्स, तथा अन्य सभी चल संपत्तियां, वर्तमान या भविष्य की सम्मिलित हैं।

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

पता : द्वितीय तल, आत्मा राम भवन, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली - 110 001 कब्जा सूचना

जबिक नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) ('उक्त अधिनियम') के अंतर्गत आर्सिल रिटेल लोन पोर्टफोलियो 045-सी टस्ट ('आर्किल') के टस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्य कर रहे हैं और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ('उक्त नियम') के नियम 3 के साथ पिटत उक्त अधिनियम की धारा 13 (12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19-12-2023 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता अर्थात आरती पत्नी दलीप कुमार और स्वर्गीय श्री के कानूनी उत्तराधिकारियों दलीप कुमार, को बुलाया गया। गारंटर और बंधककर्ताओं को लैन संख्या रन्भ्करभ10000162 के विरुद्ध राशि वापस करने के लिए पत्र भेजा है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता द्वारा उक्त राशि वापस करने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को यह सुचित किया जाता है कि नीचे दिए गए दिनांक को हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के नियम 8 के साथ उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित अचल संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

उधारकर्ता और गारंटर के नाम	मांग सूचना	कब्जे की तारीख
1. आरती पत्नी स्वर्गीय श्री दलीप कुमार 2. स्वर्गीय श्री दलीप कुमार अपनी पत्नी श्रीमती आरती के माध्यम से (एल.आर. में से एक होने के नाते) 3. श्री दीक्षानंद, पुत्र स्वर्गीय दलीप कुमार (एल.आर. में से एक होने के नाते) 4. सचितानंद, पुत्र स्वर्गीय दलीप कुमार (एल.आर. में से एक होने के नाते) 5. कृष्णानंद, पुत्र स्वर्गीय श्री दलीप (एल. आर. में से एक होने के नाते)	दिनांक 12.12.2023 तक रु. 58,99,263. 56 / — (पचास रुपये अनटावन लाख निन्यानबे हजार दो सौ तिरसट और छप्पन पैसे मात्र) तथा साथ ही 13—12—2023 से उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भावी ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि।	29-05-2024

संपत्ति का विवरणः एच नं. एस-1/ए-29, ई ब्लॉक, खसरा नं. 78/13/2, स्वर्ण पार्क, मंगल बाजार रोड, ग्राम मुंडका, नई दिल्ली – 110041 आरती झा पत्नी दलीप कुमार झा के नाम पर क्षेत्रफलः – ८९ वर्गे गज इसके बाद इसे 'अचल संपत्ति' कहा जाएगा।

विशेष रूप से उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता तथा आम जनता को एतद्दवारा सावधान किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति पर आर्सिलिस का वैध कब्जा है तथा सरफेसह अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के अंतर्गत, उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात् आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा लेन-देन / अलगाव के माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेगा तथा अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपर्युक्त राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा, साथ ही उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज तथा आकस्मिक व्यय, लागत,

उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधककर्ताओं का ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो कि ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

स्थानः दिल्ली हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 03.06.2024 एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड, Arcil

सीआईएनः U65999MH2002PLC134884, वेबसाइटः www.arcil.co.in

पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29 सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई - 400 028 दूरभाष: 91 2266581300

**शाखा पताः** कार्यालयं संख्या 1008, 11वीं मंजिल, वेस्टेंड मॉल, जनकपुरी जिला केंद्र, जनकपुरी न ई दिल्ली-110058 दुरभाषः 011-41775206

> EASTERN DOOARS TEA CO. LTD. CIN: L15492WB1917PLC002823;

Telephone No.: +91-33-2282 9303; Email ID: easterndooars@gmail.com; Website: http://www.nahata-group.com/

Recommendations of the Committee of Independent Directors ("IDC") of Eastern Docars Tea Co. Lt ("Company") under Regulation 28 of the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, as amended, ("SEBI Delisting Regulations") on the delisting offer made by nember of the Promoter and Promoter Group of the Company viz., Bijni Dooars Tea Co. Ltd. ("Acquirer" to the Public Shareholders of the Company for acquiring all the equity shares that are held by public shareholders, individually; and consequently voluntarily delist the Equity Shares from the only stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. The Calcutta Stock Exchange Limited "Stock Exchange").

June 01, 2024 Name of the company EASTERN DOOARS TEACO. LTD. Details of the Delisting offer Voluntary Delisting Offer made by the Acquirer for acquisition of 15.61 pertaining to the Company (Fifteen Thousand Six Hundred Nineteen) Equity Shares of ₹ 10/- each ("Offer Shares") representing 7.81% of the total issued Equity Share Capital of the Company from the Public Shareholders and consequent Voluntary Delisting of the Equity Shares from The Calcutta Stock

Delisting Offer

Exchange Limited ("Stock Exchange") in accordance with the SEBI Floor Price: ₹ 278/- per Equity Share Initial Public Announcement dated January 22, 2024 ("IPA") issued by M/s. Intelligent Money Managers Private Limited, Manager to the

Delisting Offer, on behalf of the Acquirer. Detailed Public Announcement dated May 24, 2024 ("DPA") and Letter of Offer dated May 27, 2024 ("LOF") has been issued by Bijni Dooars Tea Co. Ltd. ("Acquirer"), part of the Promoter Group

Bijni Dooars Tea Co. Ltd. Name of the Manager to the Intelligent Money Managers Private Limited CIN: U65923WB2010PTC156220 2nd Floor, YMCA Building, 25, Jawaharlal Nehru Road, Kokata-700087 Tel. No.: +91-33-4065 6289;

Website: www.intelligentgroup.org.in/. Contact Person: Mr. Amit Kumar Mishra; SEBI Registration No.: INM000012169; Validity Period: Permanent Members of the Committee Name of the Independent Director Designation of Independent Directors Sampat Mal Sancheti Chairman & Member

with due Company (Director, Independent Directors of the Company Equity. Shares, owned, any None of the members of IDC hold any equity shares of the Company other contract/ relationship. None of the members of the IDC have entered into any contract or have any relationship with the Company.

Prakash Kumar Gouti

IDC Member's relationship All the members of IDC are presently acting in the capacity of

Email: info@intelligentgroup.org.in;

Trading in the Equity Shares! Not applicable as None of the members of IDC hold any equity shares of other securities of the the Company. Company by IDC Members

IDC Members' relationship None of the members of IDC with the Acquirers (Director, a. are directors on the Boards of Directors of the Acquirer or other Equity Shares owned, any members of Promoter and Promoter Group of the Company;

other contract/ relationship, b. hold any equity shares or other securities of the Acquirer or other members of Promoter and Promoter Group of the Company except Mr. Prakash Kumar Gouti holds 150 equity shares of the Acquirer as

on the date of this recommendation; and have any contracts/ relationship with the Acquirer or other members of Promoter and Promoter Group of the Company Trading in the equity shares/[Mr. Sampat Mal Sancheti has tendered 300 equity shares of the

other securities of the Acquirer on April 30, 2024 under delisting exit offer of the Acquirer. As on Acquirers by IDC members | the date of this recommendation, Mr. Sancheti does not hold any equity hares of the Acquirer. As on the date of this recommendation, Mr. Prakash Kumar Gouti holds

150 equity shares of the Acquirer.

 Recommendation on the Based on the review of IPA issued by the Manager to the Delisting Offe. Delisting Offer, as to whether on behalf of the Acquirer, DPA and LOF has been issued by Bijni the Delisting Offer is fair and Docars Tea Co. Ltd. ("Acquirer"), part of the Promoter Group, the Due Diligence Report of the Peer Review Company Secretary and based on

Floor Price certificate issued by M/s A Jana & Co., Chartered Accountants, FRN: 312169E, A K Jana, Proprietor, Membership no. 050783, the members of the IDC believe that the Delisting Offer, is it accordance with the SEBI Delisting Regulations and to that extent, is fail The members of the IDC have considered the following reasons provided by the Acquirer in the IPA for making recommendations:

(IDC may also invite attention a) The proposed delisting would enable the members of the Promoti to any other place, e.g. Group to obtain full ownership of the Company, which in turn will provide enhanced operational flexibility. As the Company will no longer remain listed, there will be reduction in dedicated along with written advice of management time to comply with the requirements associated with the independent adviser, if continued listing of equity shares, which can be refocused to its any, can be seen by the business;

The delisting proposal will enhance the Company's operational, financial and strategic flexibility including but not limited to corporate restructurings, acquisitions, exploring new financing structures,

including financial support from the Promoter Group; c) The proposed delisting will result in reduction of the ongoing substantial compliance costs which includes the costs associated with listing of equity shares such as annual listing fee and fees payable to share transfer agents, expenses towards shareholders' servicing and such other expenses required to be incurred as per the

applicable securities law; d) The shares of the Company are infrequently traded on the stock exchange. The delisting proposal is in the interest of the Public Shareholders as it will provide them an opportunity to exit from the

Company at a price determined in accordance with the Delisting Regulations, providing immediate liquidity and uncertainty associated with infrequently traded shares. Based on the review of IPA, DPA and LOF issued by the Manager to the

Delisting Offer on behalf of the Acquirer, Due Diligence Report of the Peer Review Company Secretary and the above reasons for delisting, the members of IDC are of the opinion that the Delisting Offer is fair and reasonable and in the interest of the Public Shareholders of the Company. Besides other factors, the members of the IDC specially took note of the fact that the Delisting Offer will provide the Public Shareholders an opportunity to realize immediately a certain value for their share at a time

of uncertainty associated with infrequently traded shares. IDC recommends the public shareholders to bid their shares at their preferred price in reverse book building as the Floor Price announced by the Promoter Acquirer is only indicative. The IDC, however, suggests that the Public Shareholders of the

Company should independently evaluate the Delisting Offer and take informed decision in respect of the Delisting Offer.

This statement of recommendation will be available on the website of the Company at http://www.nahata-group.com/.

13. Disclosure of the voting The recommendations were unanimously approved by the members of

14. Details of the independent None. advisers, if any

15. Any other matter(s) to be None

highlighted

Date: June 01, 2024

Place: Kolkata

To the best of our knowledge and belief, after making proper enquiry, the information contained in or

accompanying this statement is, in all material respect, true and correct and not misleading, whether by omissions of any information or otherwise and includes all the information required to be disclosed by the Company under the SEBI Delisting Regulations. For and on behalf of the Committee of Independent Directors of

EASTERN DOOARS TEA CO. LTD.

Sampat Mal Sancheti Chairman of the Committee of Independent Directors DIN: 00620693

# ਦਿਤਕੀ

वेबसाइट – www.sidbi.in

[(सरफासी नियमावली 2002) के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं

म्न. सं.	दृष्टिबंधककर्ता का नाम पूरे पते के साथ	10 / 05 / 2024 के अनुसार लागू ब्याज	प्रतिभूत परिसंपत्ति के विवरण
1.	द ब्रूक्स इंटरनेशनल (अपने एकमात्र स्वामी के माध्यम से), पता : एफ-4, सेक्टर डी1, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201103  श्री तरुण जैन पुत्र श्री केवल प्रकाश जैन, निवासी एफ-13/3, ऊपरी भूतल, मॉडल टाउन पार्ट-2, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली—110009	₹ 1,66,88,833.00	ऋण अनुबंध में वर्णितानुसार उधारकर्ता की परियोजना से संबंधित उधारकर्ता की सभी चल संपत्तियां तथा जो मैसर्स द ब्रूक्स इंटरनेशनल, एफ—4, सेक्टर—डी1, ट्रोनिका सिटी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश — 201103 में स्थित हैं, जिसमें उसकी चल संपत्ति, संयंत्र, मशीनरी, मशीनरी के पुर्जे, उपकरण और सहायक उपकरण, कार्यालय उपकरण, कंप्यूटर्स, फर्नीचर और फिक्सचर्स, तथा अन्य सभी चल संपत्तियां, वर्तमान या भविष्य की सम्मिलित हैं।

उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / दृष्टिबंधककर्ता द्वारा प्रस्तुत पतों पर प्रेषित दिनांक 15 / 05 / 2024 की मांग सूचना बिना प्राप्त हये बिना ही वापस हो गयी है। अतः ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / दृष्टिबंधककर्ता से अनुरोध किया जाता हैं और सिडबी आप सभी से मांग करता है कि उपरोक्त बकाया ऋण राशि और सिडबी को देय लागू ब्याज का भूगतान उपरोक्त तालिका में दर्शाये गये विवरण के अनुसार, संबंधित तिथियों से राशि पर अनुबंधित ब्याज दर और अन्य लागतों एवं प्रभारों आदि के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर करें, ऐसा न करने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता, बैंक को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित दृष्टिबंधक परिसंपत्तियों / प्रतिभूत परिसंपत्ति के विरुद्ध सरफासी अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होंगे। उधारकर्ता / गारंटीकर्ता / दृष्टिबंधककर्ता का ध्यान, प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ऋणमुक्त करने के परिप्रेक्ष्य में उधारकर्ता के पास उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर भी आकृष्ट किया जाता है।

www.readwhere.com

दिनांक : 03/06/2024

स्थान : नई दिल्ली